



(L) भुगतान विवरण: किया गया भुगतान

 चेक बैंक खाता अंतरण नकद

नकदी से खाता खोलने के लिए, ग्राहक को खाता खोले जाने वाली शाखा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर नकद धनराशि जमा

राशि (₹)\*

बैंक खाता संख्या/ चेक नंबर

चेक का दिनांक

बैंक का नाम

शाखा

चेक रेखांकित तथा खाते में देय होना चाहिए और “उत्कर्ष लघु वित्त बैंक लिमिटेड खाता &lt;आवेदक का नाम&gt;” पर काटा गया होना चाहिए।

(M) एफएटीसीए - सीआरएस कर विषयक निवास स्थान घोषणा जो आपके लिए लागू होता है उस पर सही का निशान लगाइए।

 मैं भारत का कर निवासी हूँ और किसी अन्य देश का नहीं।

या

 मैं नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित देश का कर निवासी हूँ।

व्यक्ति/इकाई कर उद्देश्य के लिए जहाँ की निवासी है, कृपया उस देश/देशों तथा संबंधित कर आईडी नंबर को नीचे इग्निट कीजिए:

जन्म का शहर

जन्म का देश

कर उद्देश्य के लिए पते का प्रकार

आवासीय

विजनेस

पंजीकृत कार्यालय

जन्म का देश

कर उद्देश्य के लिए पते का प्रकार

आवासीय

विजनेस

पंजीकृत कार्यालय

जन्म का देश

कर उद्देश्य के लिए पते का प्रकार

आवासीय

विजनेस

पंजीकृत कार्यालय

देश

कर पहचान संख्या

पहचान प्रकार

# यदि व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक / ग्रीन कार्ड धारक है तो संयुक्त राज्य अमेरिका को भी शामिल किया जाना है।

% यदि कर पहचान संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया पर्याजनमूलक समझ प्रदान करें।

एफएटीसीए - सीआरएस प्रमाणण: मैंने/मरने डॉस प्रपत्र की सूचना संबंधी आवश्यकताओं (एफएटीसीए - सीआरएस निर्देशों और नियम और शर्तों के अनुसार दी गई) को समझा दिया है और

एतत्वांतर इस बात की पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि इस प्रपत्र पर मेरे हाथर द्वारा प्रदान की गई जानकारी सत्य, सही और पूर्ण है और इसके माध्यम से उसे स्वीकार करता हूँ/करते हैं।

आवेदक का हस्ताक्षर

नामांकन (डीए)

 हाँ, मैं (नीचे दिए गए विवरण के अनुसार) नामांकन करना चाहती हूँ।  नहीं, मैं / हम घोषणा करता हूँ / करती हैं कि मैं / हम अपने खाते में नामांकन करने की इच्छा नहीं स्वती हूँ/रखती हैं।

बैंक जामा के संबंध में, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 45 ज़ेर ए एवं बैंकिंग कंपनियों के नियम 2 (1) (नामांकन) नियम 1985 के तहत नामांकन

मैं / हम निम्नलिखित व्यक्ति को नामांकन करते हैं: जिसे मेरे / हमारे / नावालिंग की मृत्यु की स्थिति में उत्तरोक्त खोले गए खाते की गणि खाता खोलने की शाखा द्वारा उत्कर्ष लघु वित्त बैंक द्वारा वापस की जा सकती है।

यह नामांकन बचत / चालू खाता और सालवधि जामा के लिए लागू होगा।

नामांकित व्यक्ति का नाम (\*)

 यदि नामिती का पता आवेदक के मेलिंग पते के समान है तो सही का चिह्न लगाएं।

फ्लैट नं \* और बिलिंग का नाम \*

रोड नं. / नाम

लैंडमार्क

जिला / शहर \*

राज्य \*

ठेली

नामांकित व्यक्ति के जन्म की तारीख (नावालिंग के सामाने में अनिवार्य)

चूँकि नामांकित व्यक्ति इस तिथि पर नावालिंग है, मैं नाम

पता

D D M M Y Y Y Y

गांव / पीओ \*

देश \*

जमाकर्ता के साथ संबंध, यदि कोई हो

नावालिंग के साथ संबंध

आवेदक का हस्ताक्षर/अभिभावक

गवाह 1 हस्ताक्षर

तिथि

गवाह 2 हस्ताक्षर

तिथि

गवाह का व्यक्तिगत विवरण (अंगूठे के निशान को 2 गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाएगा)

गवाह 1 नाम

पता

गवाह 2 नाम

पता

गवाह 1 नाम

पता

गवाह 2 नाम

**सावधि जमा / आवर्ती जमा के लिए निर्देश:**

मैं/हम नीचे सही का निशान लगाए अनुसार सावधि जमा / आवर्ती जमा खाता खोलने की इच्छा रखते हैं।

सावधि जमा / आवर्ती जमा के लिए धारण प्रतिमान	परिचालन निर्देश	सावधि जमा / आवर्ती जमा
<input type="checkbox"/> प्रथम आवेदक केवल <input type="checkbox"/> द्वितीय आवेदक केवल	<input type="checkbox"/> एकल <input type="checkbox"/> कोई एक या <input type="checkbox"/> संयुक्त रूप से <input type="checkbox"/> पूर्व या उत्तरजीवी	<input type="checkbox"/> सामान्य <input type="checkbox"/> वरिष्ठ नागरिक
<input type="checkbox"/> प्रथम और द्वितीय आवेदक केवल <input type="checkbox"/> अन्य	<input type="checkbox"/> अभिभावक के संरक्षण में नाबालिग <input type="checkbox"/> कोई एक या उत्तरजीवी	<input type="checkbox"/> कर्मचारी

जगताकारी की मृत्यु की स्थिति में, जागरूक उत्तमा का समयवृद्धि परिसमाप्त स्वीकृत होगा। इस प्रकार का समयवृद्धि परिसमाप्त होने पर कोई द्वारावाक्ष शुक्रन नहीं लेगा। सुखुम खाना धाराको में से किसी एक की मृत्यु की स्थिति में, जगा की गई धनरथि आ अधिकार तब तक नष्टचालित रूप से जीवित संरक्षित जगा धारा कप पर हस्तानित होनी होती है, जब तक कि कोई उत्तरायिता छड़न न हो। मैं / रम समर्पित है कि उत्तरायिता छड़ की व्यवस्था वाले संस्कृत जगा के मामले में, एक वा एक से अधिक संस्कृत जगाकर्ता की मृत्यु होने पर, बैंक के द्वारा उत्तरायितों को उनके अनुरोध पर सावधि जगा धनरथि प्राप्तियों का परिवर्तना अवधि से पूर्व भगतान करें। अपने देवताओं से मुक्ति पाना कर ली जाएगी।

कपया डेबिट करें नया खाता / मौजूदा खाता संख्या \_\_\_\_\_ आवारा जमा किस्त / सावाधे जमा बुकिंग के लिए साथ ही और परेक्वटा / ब्याज के लिए राशि शब्दों में \_\_\_\_\_

三

म / हम उपयुक्त सामग्री जैसा / जावता जैसा के लिए, अपने प्रतीकार्थ पत पर इमार्क ड्राइवर्ट के माध्यम से पारक्षक्यता / जागा को मुश्गलन करना आहत हो

ट्रांडाएस विवरण: ट्रांडाएस को कटाना करें (याद लागू हो) हा नहा याद नहा ता प्रपत्र (15जा.एच) सलान करो आयकर छुट पत्र ग्राहक आङ्डी म आकत छुट

सांत पर कर कटीता(फ़हंद) के विवरण

- अमेरिका दूसरी संस्था-सम्पर्क पर आवेदक आनंदाय, 1961 अब आवेदक निवास के अनुसार लागू होगा। टाइपरेस के लिए लागू वर्तमान दर बहु बहु अपना वर्कसेल्फ पर प्रदानत का नामांका। टाइपरेस का कठोरा उस सम्पर्क का जाना हो उस एक वित्तान वर्ष में प्राप्त ग्राहक भूगतान करने वाले को भाग प्राप्त ब्रैक 10,000 से अधिक होता है।
  - भारत में रहने वाले व्यक्ति को मालामाले में कठोर्यां व्याज के लिए किसी भी प्रकार के कठोरी नहीं की जाएगी, वरि ऐसा व्यक्ति वैक जो लिखित रूप में निर्धारित प्राप्त (प्राप्त 15/ची/एच) में इस आशय की घोषणा करता है कि जिस वर्क के लिए व्याज की आवधि को, कुल आय की गणना करने के लिए शामिल किया जाना हो उस वर्क के लिए अमरिका कुल आय पर कर कर्तव्य देता है।
  - प्राप्त संख्या 15 ची / एच की नियम विवरण में जामा जाना हो। प्राप्त नव विवरण वर्ष में ना प्राप्त संख्या 15 ची / एच की जामा जाना हो। एच / चमा के बाद ग्राहकों को एक कम संख्या जी जागीगी।
  - प्राप्त 15 ची / एच काम के विवरणों में नहीं जामा जाना हो। एच / चमा के बाद ग्राहकों की प्राप्तियां विवरण में लिखी जाएं ताकि उनके बारे में जानकारी दी जाए।
  - आवाक्य अधिनियम की धारा 139ए (51) के अनुसार प्राप्तकर्ता जो ऐसी आय वा विवाह प्राप्त करता है जिसमें दो आवाक्य अधिनियम के प्राप्तियां के लिए वैक ताकि उनके बारे में जानकारी दी जाए। एच / चमा प्राप्त 15 ची / एच वर्क साथान के व्यापक काम के दर तकि हम आपकी वैहतर रूप से सेवा करने में समर्प्त हो सकते हैं।
  - आवाक्य अधिनियम की धारा 139ए (51) के अनुसार प्राप्तकर्ता जो ऐसी आय वा विवाह प्राप्त करता है जिसमें दो आवाक्य अधिनियम के प्राप्तियां के लिए वैक ताकि उनके बारे में जानकारी दी जाए। एच / चमा के बाद ग्राहकों की धारा 139ए (51) के अनुसार प्राप्तकर्ता को कठोरी प्राप्त नहीं होने के लिए उत्तरदाय दिया जाता है।
  - ₹50,000 का उत्तरदाय के बाद ग्राहकों को एक नेटवर्क प्राप्त करना हो। एच / चमा के बाद ग्राहकों का उत्तरदाय दिया जाता है।
  - जामा की अविवाह वर्ष में कठोर्यां जो सामाजिक माला अविवाह की धारा 50,000 की जाती है। अविवाहिका काम करने की आवाक्यता की होती है।
  - विनियोक्त 2009 (सांख्यिकी) के अनुसार के माध्यम से शासित की गई वार्ष 2006 के अनुसार 01.04.2010 से प्राप्तानी के कुछ एक ऐसे विवरण जामा की जाना जाता है जो कामाने में 20% की दर से टीडीएस का द्वारा वित्तीन वर्क के लिए वित्तीन पर कर कठोरी करने के बाद आय प्राप्त होती है उसे अपना पैन नंबर प्राप्त करना जाता है। एच / चमा के बाद ग्राहकों की अविवाहित वर्क के लिए वैक ताकि उनके बारे में जानकारी दी जाए।
  - टिप्पणी: उत्तरदाय वाले स्वतरक के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी जितने गए दिया-निर्देशों के अनुसार परिवर्तनीय है। सांख्यिकी कामों और निवासित कामों (कामप्रेसेस) के मालामाल में वैक लागू नहीं होगे।

आवेदक का हस्ताक्षर

केवल बक उपयाग हातु											
सीआरएम आईडी						जमा किये गये दस्तावेज					
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
आईडी प्रमाण						फोटो					
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
विपणन चैनल						लीड जेनरेटर कोड					
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
लीड कन्वर्टर कोड											
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
मूल्य दिनांक						यूडीएन					
<input type="checkbox"/> D			<input type="checkbox"/> D			<input type="checkbox"/> M			<input type="checkbox"/> M		
<input type="checkbox"/> Y			<input type="checkbox"/> Y			निधि धारक खाता संख्या					
<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>					
शरखा का नाम						गृह शाखा / कार्यालय कोड					
<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>					
प्रोडक्ट कोड						पीजीके नं.					
<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>					
दिनांक*						हमारे कर्मचारी / स्टाफ संख्या					
<input type="checkbox"/> D			<input type="checkbox"/> D			<input type="checkbox"/> M			<input type="checkbox"/> M		
<input type="checkbox"/> Y			<input type="checkbox"/> Y			<input type="checkbox"/> Y			<input type="checkbox"/> Y		
राजनीतिक रूप से अनुभवी व्यक्ति						<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं					
<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>					
खाते का प्रकार						<input type="checkbox"/> बचत <input type="checkbox"/> वेतन <input type="checkbox"/> चालू <input type="checkbox"/> सावधि जमा <input type="checkbox"/> आवर्ती जमा					
<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>					
केवल वेतन खाते के लिए लागू						खाता नंबर.					
<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>					
लेबल कोड						स्टाफ रोजगार आईडी					
<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>					
नियोक्ता की ओर से पहचान सत्यापित करने वाला पत्र						<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं या नियोक्ता द्वारा जारी किया गया आईडी कार्ड <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं					
<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>					
फ़िल्ड सत्यापन शुरू किया गया						<input type="checkbox"/> मौजूदा ग्राहक के लिए पीजीके जारी किया गया					
<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>					

शाखा द्वारा घोषणा

मैं इस बात को प्रभावित करता हूं कि खाता खालेने से संबंधित वह कॉर्स परी तरह भरा हुआ है और संबंधित दस्तवेज बैक और आइकॉट डेके विशिष्टियों के अनुसार प्राप्त किए गए हैं (जोना कि सम्पर्क-सम्पर्क पर संबंधित किया जाता है) और यह किया जाता है कि वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए उचित कार्यालयी का निष्पादन किया गया है। खाता सीरीज़ में सेट-अप किया जा सकता है।

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के लिए

शाखा प्रमुख / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

आधिकारी का नाम: \_\_\_\_\_ पदनाम: \_\_\_\_\_

एस.एस. संख्या: हस्ताक्षर:

---

---

## नियम एवं शर्तें (ग्राहक प्रतिलिपि)

## नियम एवं शर्तें केवल बैंक

म / एवं एन्टरप्रायझ सहायता व्यक्त कराना/करता हो के बाक जस्ता अपन अनुसार उत्पाद सम्पर्क जान वाल रूप म स्थापित कराया गया का वस्तुलाया प्राप्ति भूमिका करना, ग्राहक/पार्सापात्राया का क्रिसास भाषा जानकारी का प्राप्त करन या संस्थापन करन, आग उससे जड़ कोई भी आवश्यक या आकर्षित विधिविवरण कार्यालय और विशेषज्ञाओं सम्पर्क उत्पाद की जाने लाई किसी भी उत्पाद/सेवाओं के संबंध में/के अनुसार किए जाने के लिए, आवश्यक किसी भी विषय के लिए, ग्राहक के जीवित और लागत पर किसी भी व्यक्ति/ तीरीय पक्ष सेवा प्रदाता/ एन्टरप्रायझ सेवा प्रदाता/ एन्टरप्रायझ सेवा प्रदाता/ करने का हकदार होगा।

बैंक को मुझे कम से कम 30 दिन की पूर्व सूचना देकर किसी भी समय मेरा खाता बंद करने का अधिकार है, यदि:

1. खाता खोलने के समय या उसके बाद दिया गया कोई भी दस्तावेज़ / सूचना फर्जी / जाली / दोषपूर्ण / गलत / दुर्भावपूर्ण / अमान्य पाई जाती है।

II. खाते का असंबोध जनक व्यवहार जिसमें खाते के माध्यम से किए गए लेन-देनों के लिए काई अंतर्निहित तक विद्यमान नहीं होता है या ऐसे अवांछनीय / अवैध लेनदेन हैं जिन्हें धन शोधन के लिए अपराध की आय के रूप में समझा जा सकता है, या खाते के व्यवहार का घोषित प्रॉफ़ाइल से मेल न खाना।

III. जहां खाते का इस्तेमाल मनी-म्यूल खाते के रूप में या मल्टी लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) लेनदेन के लिए किया जा रहा है।

मुझे हमें उत्कर्ष स्मैल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रति मेरे वर्तमान और स्थायी निवास के पते और व्यापार के स्थान के पते के सत्यापन के लिए किसी भी कारबाई को संपत्ति करने में कोई आपत्ति नहीं है।

अन्य उत्पादों और प्रस्तावों (ऑफर) की जानकारी

मैं उत्कृष्ट लेख से विन बक कम्पनीटर / सहायता कम्पनीया। सभड्ड कम्पनीया। ऐजेंटो का प्रति लोभन्ति अन्य उत्पाद के विषय में नवनतम जानकारी, विषयान प्रचार, विशेष प्रस्तावों या ऐसा किसी भी अन्य जानकारी के लिए मुझ्हसे सम्पर्क-सम्पर्क करना है।

मैं एंटिग्रा इस प्रकार की जानकारी ऐसएएस/फोन कॉल / ई-मेल या किसी अन्य मीडिया के माध्यम से प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देता हूँ।

आवदक का हस्ताक्षर

पावती

संदर्भ संख्या:

कृपया भविष्य के किसी भी संचार हेतु इस संदर्भ को प्रस्तुत करें।

## बैंक अधिकारी का नाम

ନାମାକନ ଲିଦ୍ଧା ଗଦା

६

১৪

## बैंक का आधिकारिक डि.एन.आड.

शाखा स्टाम्प के साथ बैंक अधिकारी का हस्ताक्षर